KAY ESS FASTENERS PRIVATE LIMITED

Opp York Exports, Ludhiana – 141010

Address: SCO 9, 2nd Floor, Jandu Towers,

Miller Ganj, Ludhiana – 141003, Punjab

Mail id: kayess.liq@gmail.com

U28991PB2001PTC024637

N00152/2017-18/10399

Phone no.: 9915710010

May 01, 2024

FINANCIAL EXPRESS

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]

for the attention of the stakeholders of

KAY ESS FASTENERS PRIVATE LIMITED

5. Address of the Registered Office of 91, Mohindra Enclave, Near Moti Nagar.

Telephone Number and the Registration IBBI Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-

Notice is hereby given that the KAY ESS FASTENERS PRIVATE LIMITED has

commenced voluntary liquidation on April 01, 2024. The stakeholders of KAY ESS

FASTENERS PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims,

on or before May 01, 2024, to the liquidator at the address mentioned against item 7. The

financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other

stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Voluntary Liquidator, Kay Ess Fasteners Private Limited

3. Authority under which Corporate Person Registrar of Companies, Punjab

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act; 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India ripline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notice under section 13(2) of the said Act, calling upon he Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them, in connection with above, notice is hereby given, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the tate(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Demand Notice Date & Amount Description of Secured Asset (immovable property) Guarantor(s) All that piece and parcel of the property being: Mr. Ravi Shankar Rai 02-Apr-2024 Ms Ravi Shankar Rai ₹ 21,72,003.00/-Built Up Third Floor (RHS) with its Roof Rights. Mrs. Soni Rupees Twenty One Property Bearing No-Rz-16-A/15-D/2, Kh No-392 Prospect No IL10104360 Lakh Seventy Two & 393, Area Ad, measuring: 540 sq.ft, Vill. Nagal Thousand Three Only) Raya, West Sagarpur, New Delhi, India. 110046

the said Borrower fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office : Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najalgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Place : DELHI

Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL) Date: 04.04.2024

DEMAND NOTICE EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.

CIN: U67100MH2007PLC174759 Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098 Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, ("The Act") read with rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

he undersigned is the Authorized Officer of the Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited "EARC") under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. In exercise of powers conferred under the Section 13 (12) of the Act read with rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued a Demand Notice under section 13 (2) of The Act, calling upon the following borrower(s), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given once again, to the Borrowers to pay EARC, within 60 🛮 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further nterest as detailed in the said Demand Notice, from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following asset have been mortgaged to EARC by the said borrower(s) respectively.

SI	Name Of The Borrower(s)/	Demand Notice	Details of the		
No	Co-Borrower (s)/Loan Account Number	Date & Amount	Trust & Assignor		
	ARTI SHARMA (Borrower) SANTOSH	11/03/2024	EARC TRUST SC 43		
1.	KUMAR SHARMA (Co-Borrower)	&	& Grihum Housing		
	LAN:- HM/0045/H/17/100477	Rs. 14,18,113.15	Finance Limited		
Description Of Property:- PROPERTY 1: All That Piece And Parcel Of Residential Pvt. Plo					
No	No. 4. On Part Of Arazi No. 97. Near Fatteour Road, Mauia Arra, Pargana & Teh - Kanpui				

Nagar. Adm:-855.Sq.Ft.Near Santosh Baba Mandir, Fattepur Road Pin Code:-208021 Bounded By:-East:- Open Land, West:- 15' Wide Kaccha Road, North:- Plot Of Such Person, South:- .Plot Of Such Person If the said Borrowers shall fail to make payment to EARC as aforesaid, EARC shall proceed

against the above secured assets under the section 13 (4) of the Act and applicable rules entirely at the risks of the said Borrower(s) as to costs and consequences. The borrowers are prohibited under The Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of EARC. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Date: 04.04.2024 Sd/- Authorized Officer

For Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: https://bankauctions.in/

Demand Notice

u/s 13(2) Date

and Amount

29/11/2022

Rs. 25,08,147/-

along with further

overdue charges and

additional interest

Total Outstanding

Rs. 25,08,147/-

as on date 23/11/2022

22/10/2020

Rs. 15,93,062/- along

with further overdue

charges and

additional interest

Total Outstanding

Rs 15,93,062

as On Date 31/10/2022

03/09/2022

Rs. 6,45,991/- along

with further overdue

charges and

additional interest

Total Outstanding

Rs 6,45,991 as on date

23/08/2023

22/10/2020

Rs. 15,16,191/-

along with further

overdue charges and

additional interest

Total Outstanding

Rs 15,16,191 as on

Date 22/10/2020

shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform.

Secured Creditor shall not be answerable for any error, mis-statement or omission. Actual extant & dimensions may differ.

shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, own system crash, power failure etc.

by interested bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of "Hinduja Housing Finance Limited" on or before 30-04-2024

bidders to participate in the online inter-se bidding /auction proceedings at the date and time mentioned in E-Auction Sale Notice.

Lucknow, U.P-226010 and the Service Provider for getting declared as successful bidder in the E-Auction Sale proceedings.

days from the date of sale by DD/Pay order/NEFT/RTGS/Cheque favoring Hinduja Housing Finance Limited.

later date before 30 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider.

paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale.

deemed fit by the Authorised Officer, falling which the earnest deposit will be forfeited

be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property.

The decision of the Authorized Officer is final, binding and unquestionable.

Rules 2002, about holding of auction sale on the above-mentioned date / place,

in respect of payment of all taxes / charges.

Place: Bareilly

Date: 03-04-2024

Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone.

Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser.

All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them.

🛊 Edelweiss

Place: Lucknow

HINDUJA

HOUSING FINANCE

Name of Borrower(s)/

Co-Borrower(s) /

Guarantor(s)

Loan Account No.

UP/LKN/BRLY/A000000436

Loan Account No.

UP/LKN/BRLY/A000000014

I.Mr. Omendar Sharma S/O

lchha Ram Sharma

2. Mrs. Rani Sharma W/O

Omendra Sharma (CO

Loan Account No.

UP/LKN/BRLY/A000000158

1. Mr. Ranvir Singh S/O

Vijendra Pal Singh

2 Mrs. Rajni Ji w/o Ranvir

Loan Account No.

UP/LKN/BRLY/A000000158

Yakub (BORROWER)

BORROWER)

Mr. Riyasuddin s/o MR.

2 Mrs. Jinat Begam w/o

Riyasuddin (CO-

TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE: -

Singh (CO-BORROWER)

I. Deepak Agarwal

2. Smt. Sweta Agarwal

(Borrower)

(Co-Borrower)

(BORROWER)

BORROWER)

(BORROWER)

No.

FORM NO. RSC - 4 [Pursuant to Rule 3(3)]

Before the National Company Law Tribunal Bench a New Delhi, Company Application No 60 of 2024 SENSUI FINSERV PRIVATE LIMITED... (APPLICANT) **PUBLICATION OF NOTICE**

Notice may be taken that an application was

presented to the Tribunal at New Delhi (Bench), on

the 22nd day of March 2024 for confirming the reduction of the share capital of the above company from Rs.2,01,00,000 (Rupees Two Crore and One Lakh) consisting of 20,10,000 (Twenty Lakh and Ten Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each reduced to Rs. 1.00.000 (Rupees One Lakh) consisting of 10,000 (Ten Thousand) Equity Shares of Rs.1 (Rupees Ten) each, from each of the shareholders or the company on a proportionate basis respectively The notices to individual creditors have been issued The list of creditors prepared on the 31st January 2024 by the company is available at the registere office of the company for inspection on all workin days during 11:00 A.M. to 4:00 P.M. between Monda to Saturday. If any creditor of the company has an objection to the application or the details in the lis of creditors, the same may be sent (along with supporting documents) and details about his name and address and the name and address of hi Authorized Representative, if any, to the undersigned at csgauravkeswani@gmail.com email id o (authorized signatory) within three months of date of this notice. If no objection is received within the time stated above, entries in the list of creditors will in all the proceedings under the above petition to reduce the share capital of the company, be treated as correct. It may also be noted that a hearing has been fixed 30th Day of April, 2024 on which the Tribunal shall hear the application. In case any creditor intends to attend the hearing, he should make a request along with his objections, if any

Authorized Representative for the company Gaurav Keswani, Practicing Company Secretary

Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008 and sub-rule (4) of rule 17 of Limited Liability Partnership (LLP) Rules, 2009 AND

ADHRA AMRIT AGRO PRODUCTS LLP ("the LLP") having its registered office at House No. 25,

1st Floor, Chamber 3 Block G. Pkt 2.

Sector 11, Rohini, Delhi - 110085 Applicant Notice is hereby given to the General Public that Registrar of Companies & LLP under section 13(3) of the LLP Act, 2008 read with Rule 17(4) of the LLF

Rules, 2009 seeking confirmation of change of the Registered office of the LLP in terms of the resolution passed at the Meeting of the partners held on Wednesday, the 3" Day of April, 2024 to enable the LLP to change its Registered Office from House No. 25, 1" Floor, Chamber 3 Block G Pkt 2, Sector 11, Rohini, Delhi 110085 to Plot No. 9 Sector 23, PH III HSIIDC Barhi, Ganaur, Haryana 131101 i.e. from NCT of Delhi to State of Haryana within the Jurisdiction of same Registrar of Companies & LLP.

by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registere post of his/her objections supported by an affidavi stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Registrar of Companies & LLP. NCT of Delhi & Haryana, Ministry of Corporate Affairs at 4" Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place. New Delhi-110019 within twenty one days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant LLP at its present registered office at the

ADHRA AMRIT AGRO PRODUCTS LLP LLPIN - AAU-3262 House No. 25, 1" Floor, Chamber 3 Block G.

Pkt 2, Sector 11, Rohini, Delhi 110085 Email: info@adhraamrit.com For and on behalf of the Applicant

MOHAN GARG

Date : 04.04.2024 Place: New Delhi

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another state

Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies of rule 30 of the Companies

AND In the matter of Coglyst Technologies Private Limited having its registered office at SMS house E1/4, 2nd floor Sector 7, Rohini, North

West, New Delhi, Delhi, India, 110085 Petitioner Notice is hereby given to the General

2nd floor, CGO Complex, New Delhi at the address mentioned below:

Before the Central Government

Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) (Incorporation) Rules, 2014

Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/Extra ordinary general meeting reld on 2nd day of April, 2024 to enable the company to change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of

Any person whose interest is likely to be

amenity items viz. GPS clock, PA system Display Board, Platform Display Board over Kharagpur Division, (ii) Comprehen sive Annual Maintenance Contract (CAMC Board, Coach Guidance Display Board Central Data Controller (CDC), Platform Data Controller (PDC) at different station (Basta, Haldipada, Balasore, Soro Division; ₹ 1,85,76,008.08; ₹ 2,42,900/-02.04.2024. S&T portion of work in connec n between Kharagpur-Tatanagar sectio TPKR-ADL 23-24, Dt. 02.04.2024 Miscellaneous S&T portion of work in conn ST-OT-SpI-ADL-CGA 23-24, Dt 02.04.2024. Execution of signalling work addition & alteration to the Existing system ₹ 1,99,100/-. Cost of tender document and Upto 12.00 hrs. of 29.04.2024 for s

Co-Borrower(s)/

GENERAL PUBLIC NOTICE In the matter of sub-section (3) of Section 13 of

In the matter of

the LLP proposes to make an application to the

Any person whose interest is likely to be affected

address mentioned below:

ADHRA AMRIT AGRO PRODUCTS LLP

Designated Partner

(DIN - 07662319)

IBBI Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-N00152/2017-18/10399 AFA Certificate No. AA2-10399-02-191024-202929 valid till 19.10.2024

Rajeev Bhambri

Name of Corporate Person

is Incorporated/Registered

4. Corporate Identity Number

Corporate Person

Corporate Person

Number of the Liquidator

8. Last Date For Submission of Claims

2. Date of Incorporation of Corporate Person 12.09.2001

6. Liquidation Commencement Date of April 01, 2024

Name, Address, Email Address, Mr. Rajeev Bhambri

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Date: 04.04.2024

Place: Ludhiana

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362266

Corporate Office: R-Tech Park, 10 Floor, Nirlon Complex, off Western Expressway, Goregoan

East, Mumbai- 400063 Symbolic Possession Notice (for Immovable Property)

APPENDIX IV [See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

The undersigned being the authorized officer of the Aditya Birla Finance Limited, 2nd Floor Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110001 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 dated 18.01.24 Calling upon the Borrowers/co-Borrowers i.e. M/s BSS Buildcon, Through Proprietor, Mrs. Archana Kumar, Mr. Barun Kumar to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,96,66,639/- (Rupees Two Crores Ninety Six Lakhs Sixty Six Thousand Six Hundred Thirty Nine Only) by way of outstanding principal, arrears, accrued late charges and

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 2nd day of the month April of the year 2024. The borrower/ Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal

interest due as on 18.01.24 within 60 days from the date of the said notice.

with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Finance Limited, 2nd Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110001 for an amount Rs. 2,96,66,639/- (Rupees Two Crores Ninety Six Lakhs Sixty Six Thousand Six **lundred Thirty Nine Only)** and interest tnereon. The borrower's/ Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the

said Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. **Description of the Immovable Property**

All that part and parcel of the Mortgaged Property being: "Plot No. PA-104, Block -A, Parklands

Pride, Sector 77, Faridabad, Haryana-121004"

PLACE: Faridabad **Authorised Officer** DATE: 02/04/2024 (Aditya Birla Finance Limited)

E-AUCTION SALE NOTICE UNDER IBC, 2016

M/S FE (INDIA) LIMITED (IN LIQUIDATION) CIN: L74899DL1994PLC061447

(A company under Liquidation Process vide Hon'ble NCLT's order dated April 12, 2019) Regd. Office of the company: W-19, Greater Kailash-II, New Delhi - 110048 Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Last Date to apply and submission of Documents: Thursday, 18th April 2024 (Till 6:00 PM)

Inspection or Due Diligence of Assets: Tuesday, 23rd April 2024 to Wednesday 1st May 2024 Last date for deposit of Earnest Money Deposit (EMD) by the Qualified Bidders:

Date of Declaration of Qualified Bidder: Monday, 22nd April 2024

Tuesday, 23rd April 2024 to Friday 03rd May 2024 Date and Time of E-Auction: Thursday 09th May 2024, 11:00 AM to 5:30 PM

(With unlimited extensions of 5 minutes each) The sale will be made through the e-auction platform at https://www.eauctions.co.in

Basic Description of Assets for sale: Bid Increment EMD Description Sale Reserve (INR) Consideration Price (INR) of Asset (in percentage

Financial Assets being Combination of a fixed 61,15,500/-

sold as Not Readily component in the form (NPV of actual

Realizable Assets of up front realization and

including Sundry Debtors, consideration with upfront fixed

Loans and Advances minimum bid value of component as

(Asset), Other Advances, Rs. 10 lakhs and alon the date of

Balances with Govt variable component in auction as Authorities etc. (Excluding the form of sharing calculated by receivables as perpercentage of actual applying Avoidance Application realization with the discounting rate which are not accounted stakeholders of the CD for in books of accounts of with minimum bid value FE (India) Ltd) being 50%. The comprehensive terms and conditions of E-Auction and other details of properties are uploaded at the website i.e., http://www.eauctions.co.in. Any serious and interested buyer can check out and submit a bid for the same. Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar Infosys Pvt Ltd): Mr. Dixit Prajapati Email id-admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 7874138237. Contact person on behalf of Liquidator: Mr. Shivam Jaiswal, Email id-

feindialiquidation@gmail.com Tel No. 011-42440071-74, Mobile. No.: +919654918220 'The above sale is subject to the approval of extension of Liquidation period by 120 days by the Hon'ble AA as the Liquidation Period in the matter is ending on 15.04.2024. An Application in this regard is being filed before Hon'ble NCLT, New

Nilesh Sharma, Liquidator (Mobile No: +919811418701) Email ID: nilesh.sharma@rminsolvency.com IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232 AFA Valid Upto: 14.12.2024 Address: C-10, LGF, Lajpat Nagar-III, New Delhi - 110024

6,11,550/-

2.50%

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties ale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at

Delhi.

Date: 04.04,2024

Place: New Delhi

Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at 30/30E, Upper Ground Floor, Shivaji Marg. New Delhi - 1100157/ Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1, Sector - 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010° under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IFFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right osell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS BASIS and WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.iiflonehome.com Demand Notice Date and Amount Borrower(s) / Reserve Price

Guarantor(s)	23-May-2023 Rs. 21,81,996/-	All that part and parcel of the property	22-Mar-2024	(Rupees Twenty Four Lakh Eighty Seven Thousand Only)	
1. Mr. Kishan 2. Mrs. Annu	an (Rupees Twenty One Lakh Eighty One Thousand Nine Hundred Ninety Six Only)	Property bearing Plot No. A-1022, Land Area admeasuring 225 Sq. ft., Carpet area admeasuring	Total Outstanding As		
M/S Rajender General Store		100 sq. ft., Built up area admeasuring 606		Earnest Money Deposit	
4. Mr. Ravi (Prospect No 969752 & 977703)	Bid Increase Amount Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	sq. ft., Situated In The Residential Scheme Of Jahangir Purl, Jahangir Purl A Block, North West Delhi, 110033, Delhi, India	(Rupees Twenty One Lakh Sixty Thousand Nine Hundred Thirty Nine Only)	(EMD) Rs.2,48,700/- (Rupees Two Lakh Forty Eight Thousand Seven Hundred Only)	
1. Mr. Nishant	The property of the property o		20-Mar-2024	Rs. 12,00,000/- (Rupee	
Nidhaniya	(Rupees Seventeen Lakh	First Floor, Without Roof / Terrace Rights	Total Outstanding As On Date 5-Mar-2024 Rs. 19,01,295/- (Rupees Nineteen Lakh One Thousand Two Hundred Ninety Five Only)	Twelve Lakh Only)	
2. Mrs. Anjali (Prospect No	Eighty Five Thousand Six Hundred and Fifty Seven Only	Towards Rhs Of Built Up Property Bearing Plot No. 8, Out Of Khasra No. 12/15 Situated In The Revenue Estate Of Village Matiata Area Abadi Known As Sewah Park , Shiv Vihar, Uttam Nagar, New Delhi 110059, Area Admeasuring (in Sq. Ft.) area admeasuring Built up area Carpet_area 450.00, 430.00 , 365.00		Rs. 29,34,000/- (Rupees	
iL10268773)	Bid Increase Amount Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)				
1. Mr. Irlan Ali		All that part and parcel of the property Flat	Total Outstanding As		
Mrs,Tabassum Tabassum Traders	One Thousand Three Hundred	No A- 502, 5Th Floor, Carpet Area 900 Sq. Ft., and Super Built Up Area 1125 Sq. Ft.,		Twenty Nine Lakh Thirty Four Thousand Only)	
(Prospect No	Ninety Five Only)	Tower A. Aura Chimera , Khata No. 552 ,	Rs. 32.68.031/-	Earnest Money Deposit	
IL10311708)	Bid Increase Amount Rs. 40,000+ (Rupees Forty Thousand Only)	Kharsa Nop. 1134, Rajnagar Extension, Ghaziabad 201017, Uttar Pradesh	(Rupees Thirty Two Lakh Sixty Eight Thousand Thirty One Only)	(EMD) Rs. 2,93,4004 (Rupees Two Lakh Ninety Three Thousand Four Hundred Only)	
Date of Inspection of property 03-May-2024, 11:00 hrs -14:00 hrs		EMD Last Date 06-May-2024, till 5pm.		of E-Auction :00 hrs13:00 hrs.	

For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:-

SCBL0036001, e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.iiflonehome.com well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards

EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.

The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75%.

of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and

all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://www.iiflonehome.com.and.https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E-mail ID: - auction https://doi.org/10.100/j.com. Support

Helpline Numbers: @1800 2672 499. For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:-auction.hi@iff.com

Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical

possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower's, that in case they fall to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law. 0. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the

amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. . AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 he Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction.

failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Place : Delhi, Date : 04-04-2024 Sdi-Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

New Delhi

successfully.

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITED **RELEVANT PARTICULARS**

FORM A

1. Name of Corporate Debtor Jatalia Global Ventures Limited 2. Date of incorporation of Corporate Debtor 03.09.1987 Registrar of Companies. Authority under which Corporate Debtor NCT of Delhi and Harvana. New Delhi is incorporated/registered Corporate Identity Number of Corporate L74110DL1987PLC350280 Address of Registered Office and Principal Registered Office: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netail Office (if any) of the Corporate Debtor Subhash Place, Pitampura, North Delhi-110034, India Insolvency Commencement Date in 07.03.2024 (Order was received by IRP on respect of the Corporate Debtor 02.04.2024from NCLT New Delhi Bench-II) Estimated date of closure of Insolvency 03.09.2024 i.e. 180 days from Insolvency Commencement Date Resolution Process Name and registration number of the Tanveerllahi Insolvency Professional acting as interim Reg. No- IBBI/IPA-001/IP-P-02553/2021-2022/13874 resolution professional Address and e-mail of the interim Address: D-158/AT. No. IV/145, Jaitpur Extn- II, Badarpur

resolution professional, as registered Near Rampali Public School, New Delhi-110044 with the Board E-mail ID:ip.tanveerilahi@gmail.com 0. Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim

Address: MNK House, 9A/9-10 Basement, East Patel Nagar, New Delhi-110008 Resolution Professional E-mail ID: jp.tanveerilahi@gmail.com; cirp.jataliaventures@outlook.com 16.04.2024 11. Last date for submission of claims 2 Classes of creditors, if any, under clause (b) No Class of

(b) Details of Authorized Representatives

Date: 02.04.2024

Place:New Delhi

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix – IV A) (Rule 8(6))

Sale of Immovable property mortgaged to Hinduja Housing Finance Limited (HHFL) having its Corporate Office at 167-169, 2ND Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai - 600

015, and Branch Office at:- 1st Floor, SRP Complex, Karam Chari Nagar, Barellly-243001, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of HHFL had taken the possession of the following property pursuant to the notice issued U/S 13(2)

of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of dues amount. The Sale will

DATE /TIME OF E- AUCTION: 02/05/2024 FROM 11:00 HRS - 13:00 HRS.

EMD DEPOSITION LAST DATE 30/04/2024 TILL 1700 HRS.

DATE OF INSPECTION OF PROPERTY 27-04-2024 BETWEEN 11:00 AM TO 02:00 PM

Description of the Immovable

property/ Secured Asset

A plot of land Admeasuring 0.1260 Hect situated at Revenue

Village Kacholi vide khasra no. 250 MI Tehsil & District Bareilly,

Direction/ Boundaries: 1-North by-Khet Lal Bahadur 2-South by-

Rest Land Seller 3-East by-Bada By Pass 4-West by-Khet Heera Lal

HDFC Bank A/c HHFLTDUPLKNBRLYA436, IFSC Code:-HDFC0004989.

Plot Bake Nandausi Tehseel & Distt-BAREILLY, Admeasuring

167.22 Sq. Mt., Direction/ Boundaries, 1. East by-Road 10 ft. West

by-Araji Part Of Seller 3, North by-Link Road 36 ft 4, South by-Road

HDFC Bank A/c HHFLTDUPLKNBRLYA14, IFSC Code:-HDFC0004989

HDFC Bank A/c HHFLTDUPLKNBRLYA158, IFSC Code:-HDFC0004989

HDFC Bank A/c HHFLTDUPLKNBRLYA59, d) IFSC Code:-HDFC0004989

Viharman Nagla Tehsil & Distt-bareilly Khasra No- 821,

Admeasuring 119.94 Sq. Mt., Direction/ Boundaries, 1. East by-

Plot Sadik. West by- Plot Zaibu Nisha 3. North by- Rasta 10ft.4.

South by-Khet Ram Das

The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities.

Particulars of the property / assets (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and

E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute

conduct own independent enquiries /due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before submission of bids.

any commitment or any representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to

Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website https://bankauctions.in/ Or Auction provided by the service provider M/s.4 Closure, who

The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor /service provider

For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S 4 Closure, having its office at 605A, 6th Floor,

Maitrivanam Commercial Complex, Ameerpet, Hyderabad - 500038 (Contact Person: Mr. Bharathi Raju Phone No. 8142000735, Mr. Subarao Phone No: 8142000061

Email: subbarao@bankauctions.in, Email. bharathi@bankauctions.in For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at https://bankauctions.in/ well in advance and shall get the user id and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from

For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable Earnest Money Deposit (EMD) of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable

cover addressed to the Authorised Officer HHFL Zonal Office Hinduja Housing Finance Limited - 2nd Floor, 212B & 212C. Plot No-TC/G-2/2 & TC/G-5/5, Cyber Heights,

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P-226010. latest by 05:00 PM on 30-04-2024. The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale- (as

quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider M/s 4 Closure to enable them to allow only those

8. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://bankauctions.in/) along with the Demand Draft remittance towards EMD in a sealed

9. After expiry of the last date of submission of bids with EMD, Authorized Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who have

10. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be unlimited extension

12. Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him by E-Mail both to the Authorised Officer, Mr. Arun

13. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) on the same day of the sale, being knocked down in his favor and balance 75% of bid amount within 15

14. In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already

16. The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) and submit TDS certificate to the Authorised officer and the deposit the entire amount of sale

17. Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the safe certificate. Bids shall

18. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the necessary proof

The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a

23. For further details and queries, contact Authorised Officer, Hinduja Housing Finance Limited, Mr. Arun Kumar Singh Mob. No. 9506011777 and Mr. Deepak Singh

24. This publication is also 30 (Thirty) days' notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement)

Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Hinduja Housing Finance Limited nor the Service Provider will be

responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the

necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction

price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the authorized officer, or within such other extended time as

Kumar Singh, Zonal Office Hinduja Housing Finance Limited 2nd Floor, 212B & 212C. Plot No-TC/G-2/2 & TC/G-5/5, Cyber Heights, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

of "10" minutes each, i.e. the end time of e- auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension.

At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount.

Situated at revenue village joherpur urben vide khasra No-

943/1944 /1 Tehseel Disst Bareilly Land Mark CV Ganj Station,

Admeasuring 83.61 Sq. Mt., Direction/Boundaries: 1. East by-Plot.

West by-Road 25 FT 3. North by-Plot South by-Rasta 28 feet

of sub-section (6A) of section 21, ascertained Creditors could be ascertained at this stage by the Interim Resolution Professional 3 Name of Insolvency Professionals identified No Class of Creditors could be ascertained at to act as Authorized Representative of Creditors this stage accordingly no Authorized in a class (Three names for each class) Representative is proposed. (a) Relevant Forms and

are available at: Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-Ilhas ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Jatalia Global Ventures Limited on 07.03.2024 (Order was received by IRP on 02.04.2024 from NCLT New Delhi Bench-II). The Creditors of Jatalia Global Ventures Limited are hereby called upon to submit their

claims with proof on or before 16.04.2024 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10. The Financial Creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other Creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic

A Financial Creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of Authorised Representative from among the three Insolvency Professionals listed against entry No.13 to act as Authorised Representative of the class in Form CA. Not Applicable

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Sd

Date and Type

of Possession

Symbolic

27/07/2023

12/12/2023

13/08/2021

Mode of Payment

All payment shall be made in favour of HINDUJA HOUSING FINANCE LTD, payable through RTGS/NEFT to

Mode of Payment

All payment shall be made in favour of HINDUJA HOUSING FINANCE LTD. payable through RTGS/NEFT to

Mode of Payment

All payment shall be made in favour of HINDUJA HOUSING FINANCE LTD. payable through RTGS/NEFT to

Mode of Payment

All payment shall be made in favour of HINDUJA HOUSING FINANCE LTD. payable through RTGS/NEFT to

Tanveer llahi-Interim Resolution Professional Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P-02553/2021-2022/13874

(a)Web Link:https://ibbi.gov.in/home/downloads

(b) Not Applicable in view of Column 13

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015. Branch: 1st Floor, SRP Complex, Karam Chari Nagar, Bareilly-243001 RRM- PANKAJ SINGH CHOUDHARY - 7081828333, RLM- ARUN KUMAR SINGH - 9506011777, CRM- DEEPAK KUMAR-9839600666 & CLM- Deepak Singh-9453220448

Reserve Price (RP)

Earnest Money Deposit

(EMD) (10% of RP)

Bid Increase Amount

₹ 45,50,000/-

₹ 4,55,000/-

₹ 10,000/-

₹ 5,00,175/-

₹ 50,017.5

₹ 10,000/-

₹ 6,50,484/-

₹ 65,048.4

₹ 10,000/-

₹ 8.74,800/-

₹ 87,480/-

₹ 10,000/-

affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the The Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office For and on behalf of the Coglyst

> Mrs. Anjali Pratik Prabhune Director Date: 2nd April, 2024

Coach Guidance Display Board etc. at different stations (Basta, Haldipada, Balasore, Soro, Bangriposi & Rakha Mines) of Multiline/Single Line Train Information Display Board (LED type), Platform Display Bangriposi & Rakha Mines) over Kharagpur (2) ST-OT-ROB-LC-131-KGP TATA, Dt. tion with construction of Road Over Bridge at Level Crossing No. 131 (Km 229/11-13) of Kharagpur Division of S.E.Railway; ₹ 30,59,971.28; ₹ 61,200/-. (3) ST-OT-SpI-Execution of signalling work, addition & alteration to the Existing system, ordinary gachi-Shallmar section of S.E.Railway; inverter-VDU_EI_Stn, Dt. 02.04.2024. section of S.E.Railway; ₹ 99,56,455.22; Months for sl. no. 1, 03 Months for sl. no. 2, 24 Months for sl. no. 3 & 5 and 06 Months for sl. no. 4. Date of Submission: Upto 12.00 hrs. of 01.05.2024 for sl. no. 1, Upto 12.00 hrs. of 25.04.2024 for sl. no. 2 & 4 no. 3 & 5. Date of Opening: 01.05.2024 for sl. no. 1, 25.04.2024 for sl. no. 2 & 4 and 29.04.2024 for sl. no. 3 & 5. Interested

Place - Delhi Ph. +91 9970057925 S. E. RAILWAY - TENDER e-Tenders are invited by Sr. Divisional Signal & Telecom Engineer(Co)/Kharagpur-721301, S.E.Railway for and on behalf of President of India for the following works before 12.00 hrs. on the date mentioned against items and will be opened at 12.30 hrs. Si. No.; Tender Notice No.; Description of works; Tender value; EMD respectively: (1) ST-OT-IPIS-11Stn 23-24, Dt. 02.04.2024; (i) Supply, Installation, Testing and Commissioning of various passenger Multiline/Single Line Train Information

Tenderers may visit website www.ireps. gov.in for full details description specification of the tender and submit their bids

repair & maintenance work for the period of two years in Tikiapara-Andul (Ex) section including Santragachi-Amta and Santra ₹ 1,18,39,870,29; ₹ 2,09,200/-. (4) ST-OTection to provision of separate Inverter for VDU monitor at El stations of Kharagpur Division; ₹ 22,17,544.77; ₹ 44,400/-. (5) ordinary repair & maintenance work for the period of two years in Andul-Chengail Nil for each. Completion Period: 108

online. In no case manual tenders for these works will be accepted. Note: Prospective

financialexp.epapr.in

Authorised Officer.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

bidders may regularly visit www.ireps. gov.in to participate in all tenders

तीसरी मंजिल, एलएचओ, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011

आईआरसीटीसी–दक्षिण मध्य क्षेत्र निम्नलिखित खुली ई–निविदाएं आमंत्रित करता है: -विभिन्न "बी" और ज़ससे नीचे की क्षेणी के रेलवे स्टेशनों पर फुड 24.04.2024 को बुड प्लाजा/फारट लाजा/फास्ट कुड इकाहयों की ख्यापना, संचालन और प्रवधन के लि 15.00 बजे तक फूब इकाइयाँ वली ई...निविद्या शहर नीलामी और ए अंभी के रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न जन आहार / जलपान क्थों। 25.04.2024 यो आहारी / जलपान माध्यम से खानपान सेवाओं के संचालन रखरखाय और प्रावधान के लिए 15.00 बजे तक वर्णा ्निविद्या सद नीलावी । विभिन्न 'दी' और क्रममें नीचे के केमी के रेलवे प्रटेशन पर रिटायरिंग फर्मों 28,04.2024 की रिटावरिंग समी / 15.00 बजे तक की नवीकरण, संकालन, रखरखाव और वापस स्थानांतरित करने के लिए ई-विविद्या सह गीलामी। निविदा दस्तावेज बाउनलोड करने और भागीदारी निम्न वेबसाइट पर की जा सकती है: -

चपरोक्त विज्ञापन पर जारी किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के मामले में, इसे केवल वेबसाइट www.irctc.com और www.tenderwizard.com/IRCTC पर ही प्रकाशित किया जाएगा। कार्यालय का पताः आईआरसीटीसी लिमिटेड, दक्षिण मध्य क्षेत्र, रु9–1–129/1/102, पहली मंजिल, ऑक्सफोर्ड प्लाजा, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद - 500003

< www.tenderwizard.com/IRCTC>

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266 कॉर्पोरेट कार्यालयः आर-टेक पार्क, 10वीं मंजिल, निरलोन कॉम्प्लेक्स, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे गोरेगांव,

(आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड)

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) परिशिष्ट IV [प्रतिभृति (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1) देखें]

पूर्व, मुंबई- 400063

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत ऑदित्य बिरला फाइनांस लि. 2रा तल. विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंबा रोड, नई दिली-110001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.01.24 सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक/सह-ऋणधारकों जेसे मै. बीएसएस बिल्डकॉन द्वारा प्रॉप्राइटर, श्रीमती अर्चना कुमार, श्री वरूण कुमार को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि बकाया मुलधन, एरअर्स, बिलम्वित प्रभारों तथा ब्याज के द्वारा 18.1.24 को रु. 2,96,66,639/- (रु. दो करोड़ छियानवे लाख छियासठ हजार छः सौ

उन्तालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 अप्रैल, 2024 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 2,96,66,639/- (रु. दो करोड़ छियानवे लाख छियासठ हजार छः सौ उन्तालिस मात्र) के चार्ज के

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

तिथि : 02.04.2024

1. निगमित देनदार का नाम

'गिरवी सम्पत्ति : प्लॉट नं. पीए-104, ब्लॉक-ए, पार्कलैण्डस प्राइड, सेक्टर 77, फरीदाबाद, हरियाणा-121004" स्थान : फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक उद्घोषणा (भारतीय ऋणषोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत) गुंडहल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेंड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

गुडहेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

- 1.	मिनानस पनपार पर्रा नान	Tours Sorkin Misso Islinos
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	06/12/2018
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत / पंजीकृत है	आरओसी, दिल्ली
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. / सीमित दायित्व पहचान सं.	U15549DL2018PTC342711
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : ई—13/29, प्रथम तल, हर्ष भवकाँट प्लेस, नई दिल्ली — 110001 संयंत्र / वेयरहाउस : ग्राम गोघोला, तहसील पुन्हान जनपद नूंह, हरियाणा — 122508 संयंत्र / वेयरहाउस : खसरा नं. 103, 104, 10 एनएच—73, देहरादून मार्ग, ग्राम कुमारहेड़ा, सहारनपुर, उत्त प्रदेश — 247001
6.	निगमित देनदार के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ करने की तिथि	02/04/2024
7.	ऋणषोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि	29/09/2024
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री बिहारी लाल चक्रवर्ती पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00863/2019-2020/12776
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता एवं ई—मेल	पता : जी सी — 901 आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201014 ईमेल : blchakravati.associates@gmail.com
10	अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्र—व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई—मेल	पता : डी–54, प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110024 ईमेल : cirp.ghipl@gmail.com
11	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	16/04/2024
12	अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित, धारा 21 की उप–धारा (६ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों,	एनए
13	एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के नाम	एनए
	(प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम)	वेबलिंक:

इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की, एक निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया, आरंभ करने का आदेश दिया है। एतदद्वारा गुडहेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 16—04—2024 को अथवा इसर पूर्व अंतरिम समाधान व्यवसायी के पास, प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदाताग साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं। दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनाक्षमत समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अध्याय IV के अनुसार की जानी चाहिये। दावों के साक्ष्य उनके दावों कं अनुसमर्थन में विद्यमान प्रलेखीय साक्ष्य के साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट प्रपत्रां के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हैं। प्रपत्र बी- परिचालनपरक ऋणदाताओं (श्रमिकों एवं कर्मचारियों को छोड़कर) द्वारा दावों हेतु; प्रपत्र सी- वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दावों हेतु; प्रपत्र सीए– उपर्युक्तानुसार एक श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दावों हेतु; प्रपत्र डी– श्रमिकों एवं कर्मचारियों द्वारा दावों हेतु; प्रपत्र ई– श्रमिकों एवं कर्मचारियां के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों हेतु: प्रपत्र एफ– वित्तीय ऋणदाताओं एवं परिचालनगत ऋणदाताओं के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं द्वारा दावों हेतु। दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

बिहारी लाल चक्रवर्त IBBI/IPA-002/IP-N00863/2019-2020/12776 दिनांक : 04/04/2024 गुडहेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण मे स्थान : नई दिल्ली एएफए वैधता 16 नवंबर 2024 तक

सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत]

जटालिया ग्लोबल वेन्चर्स लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

जटालिया ग्लाबल वन्यस ।लामटड क क्रडाटरा क व्यानाय		
	संबंधित	न विवरण
1.	कार्पोरेट ऋणधारक का नाम	जटालिया ग्लोबल वेन्चर्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	03.09.1987
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L7411ODL1987PLC350280
5.	कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 500, 5वां तल, आईटीएल ट्विन टावर नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, भारत
6.	की तिथि	07.03.2024 (एनसीएनटी नई दिल्ली पीठ-II से आईआरर्प को 02.04.2024 को आदेश प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	03.09.2024 अर्थात् दिवाला शुरु होने की तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	तनबीर इलाही पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02553/2021-2022/13874
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	पताः डी-158/एटी नं. IV/145, जैतपुर एक्स्टेII, बदरपुर रामपाली पब्लिक स्कूल के निकट, नई दिल्ली-110044 ई-मेलः ip.tanveerilahi@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः एमएनके हाउस, 9ए/9-10, बेस्मेन्ट, पूर्वी पटेल नगर, न दिल्ली-110008 ई-मेलः ip.tanveerilahi@gmail.com cirp.jataliaventures@outlook.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	16.04.2024
12.	क्रेडीटर वर्ग यदि कोई, धारा 21 की उप-धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्राफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	इस चरण में क्रेडीटर्स के किसी वर्ग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
13.	,	इस चरण में क्रेडीटर्स के किसी वर्ग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, तद्नुसार, किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्रस्ताव नहीं है।
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र तथा	क) वेब लिंकः https://www.ibbi.gov.in/home/

ख) कॉलम 13 के आलोक में लागू नहीं एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ-II, ने 07.03.2024 को (एनसीएल नई दिल्ली पीठ-II, से आईआरपी को 02.04.2024 को आदेश प्राप्त हुई) जटालिया ग्लोबल वेन्वर्स लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतदुद्वारा जटालिया ग्लोबल बेन्चर्स लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के पार

downloads

16.04.2024 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्टानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकत प्रतिनिधि

की अपनी पसंद को दर्शाएं दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

(ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण उपलब्ध हैं

हस्ता. तनवीर इलाही तिथि : 02.04.2024 अंतरिम प्रस्ताव कर्मी स्थानः नई दिल्ली पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P-02553/2021-2022/13874

भारतीय साधारण बीमा निगम

GIC Re

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: "सुरक्षा", 170 जे. टाटा रोड, चर्चनेट, मुंबई-400020. देलीफोन: +91-22-2286 7000 फैक्स: +91-22-2288 4010 वेबसाइट: www.gicre.in ई-मेल: investors.gic@gicre.in सीआईएन: L67200MH1972GOI016133 - आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या : 112

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी एक्ट, 2013 (एक्ट) की घारा 108 तथा घारा 1 10 के प्रावधानों, नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021 3/2022 11/2022 और 09/2023 और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (समय-समय पर लागू और समय-समय पर संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') में निर्धारित विशेष व्यवसाय की मदों को पोस्टल बैलेट के द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से भारतीय साधारण बीमा निगम ('निगम') के सदस्यों द्वारा अनुमौदन के लिए प्रस्तावित किया गया है। सदस्यों को एतहवारा नोटिस दिया जाता है

- निगम ने 3 अप्रैल, 2024 को ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को नोटिस भेजने का काम पूर्ण कर. लिया है।
- 2. व्याख्यारमक विवरण के साथ नोटिस निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर, ई-वोटिग एजेंसी मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, और स्टॉक एक्सचेंज (एस) की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- रिगीट ई-वोटिंग सुविधा का लाघ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'कट-ऑफ' तिथि शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 है। जिन सदस्यों का नाम निगम के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है या डिपोजिटरी दारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख तक दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- 'एमसीए' परिपत्रों के अनुपालन में नोटिस की हार्ड कॉपी, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा गया है। इसलिए, सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति को संप्रेषित करना होगा। रिमोट ई-बोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए निगम ने एनएसडीएल को नियुक्त किया है।
- रिमोट ई-बोटिंग की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश नोटिस में निर्दिष्ट हैं।
- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 4 अप्रैल, 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शनिवार, 4 मई, 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी । इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः

भौतिक स्वामित्व भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कॉर्पोरेशन (investors.gic@gicre.in) আ RTA, KFintech (einward.ris@kfintech.com) को एक ईमेल भेजकर अपना इंगेल पता पंजीकृत करवाएं।

डीमैंट स्वामित्व | डीमैंट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें। निगम ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री

कंपनी, कंपनी सचिव' से श्री उमाशंकर हेगड़े (एसीएस 22133) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। पोस्टल बैलेट की वैचता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। 9. इसका परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ निगम की वेबसाइट (www.gicofindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoling.nsdl.com) पर 7 मई, 2024 को या उससे पहले घोषित

किए जाएंगे। ये परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई को भी सूचित किए जाएंगे।

रागिनी चोकशी (एफसीएस 2390) और उनकी अनुपस्थिति में 'मैसर्स रागिनी चोकशी एंड

10. रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य पहुंची म्हात्रे एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर ई-मेल भेजकर या 022-48867000 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

भारतीय साधारण बीमा निगम के लिए हस्ताक्षरित सुरेश सावलिया रथानः मुंबई कंपनी सचिव दिनांक: 03.04.2024

त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड

कम्पनी पहचान संख्या : L29110UP1995PLC041834

पंजीकृत कार्यालय : ए-44 होजरी कॉम्प्लेक्स, फेजन एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201305 कॉर्पोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेंड टॉवर्स 15-16, सेक्टर 16 ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301 दुरमाषः 91 120 4308000 / फैक्सः 91 120 4311011 ई-मेरा shares.ttl@trivenigroup.com Website: www.triveniturbines.com

डाक मत पत्र सूचना

कंपनी के सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और एवं लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम संख्या 20 और 22 समय-समय पर संशोधित ("नियम"), 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपन्न संख्या 14 / 2020 और 13 अप्रैल 2020 के परिपन्न संख्या 17 / 2020 के साथ पढ़े गए, दिनांक 25 सितंबर, 2023 परिपन्न संख्या 9 / 2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपन्न ("एमसीए परिपत्र"), के साथ पढ़ें। भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के विनियमन 44 (सुधीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम"), सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") और अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित), त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड ("कंपनी") ने 03 अप्रैल, 2024 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिनांक 30 मार्च, 2024 का पोस्टल बैलेट नोटिस ("नोटिस") भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लामकारी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं। डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के पास शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 ("कट-ऑफ डेट") तक उपलब्ध हैं. निम्नलिखित विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने के लिए :

- कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सोन् इलन भसीन (डीआईएन: 2872234) की नियुक्ति
- कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अमृता गंगोत्रा (डीआईएन: 08333492) की नियक्ति
- श्री घ्रुव एम. साहनी (डीआईएन: 00102999) की प्रबंध निदेशक के रूप में पुन:

सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की

चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में जनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया

लिमिटेड: क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। कुपया ध्यान दें कि कंपनी के सदस्यों को नोटिस या पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जाएंगी। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के इच्छक सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपनी सहमति (के लिए) असहमति (खिलाफ) दर्ज करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट नोटिस में दिए गए सभी

नोट्स और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान

सं पढ़े। ई-वोटिंग हेतु निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग 04 अप्रैल 2024 को सुबह 9.00 बजे (IST) शुरू होगी और 3 मई, 2024 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं तो वे इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार के साथ और कंपनी के रजिस्ट्रार मेसर्स अलंकिट असाइनमेंट्स लिमिटेड के पास पंजीकृत करें। जैसा कि पोस्टल बैलेट नोटिस के नोट्स में बताया गया है

ईमेल पते को पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीका इस प्रकार है: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर, शेयरधारव का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने) प्रदान करके अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन की गई प्रति)

rta@alankit.com पर ईमेल द्वारा। डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत / अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमेंट खाते बनाए रखते हैं। उचित

सत्यापन के बाद, एनएसडीएल (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) उनके लॉगिन क्रेडेंशियल को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज देगा। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य rta@alankit.com पर लिख सकते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष रूप से एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग के

माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए श्री कपिल देव तनेजा. उनके स्थान पर श्री नीरज अरोडा, पार्टनर संजय ग्रोवर एंड एसोसिएटस,कंपनी सेक्रटरी को नियुक्त किया है। स्कूटनीजर की रिपोर्ट के साथ पोस्टल बैलेट द्वारा किए गए मतदान के परिणामों की घोषणा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा, या उनकी अनुपरिथति में कंपनी सचिव द्वारा 07 मई, 2024 को या उससे पहले की जाएगी। कंपनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनएसडीएल की www.evoting.nsdl.com वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या एनएसडीएल, चौथी मंजिल, ए—विंग ट्रेंड वर्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई — 400 013 से संपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल करें या सुश्री परुलवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक — एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें।

कृते त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड

(पुलकित मसीन) स्थानः नोएडा (यू.पी.) कम्पनी सचिव तिथि: 03 अप्रैल, 2024 M. No. A 27686 🤁 SBI अारतीय स्टेट बैंक,परिसर एवं सम्पदा विभाग

चार इमली, भोपाल में स्थित विभिन्न अतिथि गृहों तथा चुमरी में खानपान सह कैयरटेकिंग/हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए दो बोलियों व्यवस्था में निविदा

भारतीय स्टेट बैंक, परिसर एवं संपदा विभाग, एलएवओं भोपाल चर इमली भोपाल में स्थित विभिन्न अतिरि गुहों तथा चुमरी में सानपान सह केयरटेकिंग/हाउसकीपिंग सेवाओं कें लिए दो बोली व्यवस्था में निविद आमंत्रण का इरादा रखता है। पात्रता मानदंड, नियम व शर्ते, आवेदन फॉर्मेंट तथा अन्य विवरण, आवश्यकताओं सहित विस्तृत दस्तावेज़ बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर ''एसबीआई इन द न्यूज' 'प्रोक्युरमेंट न्यूज'' से डाउनलोड किया जा सकता है। इस कार्यालय में आवेदन जमा करने की अतिम तिथि दिनांक २४/०४/२०२४ को ०३.०० बजे या उससे पूर्व है।

सहायक महाप्रबंधक (परिसर एवं सम्पदा)

मैसर्स यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) सीआईएन : यू14107दीएल2014पीटीसी270321 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 26/27/28, यली नं. 2, ब्लॉक बी उग्रसेन पार्क,

नांगलोई मार्ग, नजफगढ़, दिल्ली - 110043 ऋणशोधना क्षमता एवं दिवालिया साँहेता 2016 के अंतर्गत ई-नीलामी विक्रय सूचना

हरणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया शहिता 2016 और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मैसर्स युटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) ('निगमित देनदार') की परिरापत्तियों को भारतीय ऋणशोधनाधमंता एवं दिदालिया बोर्ड (परिरामापन प्रक्रिया; विनियमावली 2016 के विनियम 32 (वी) एवं विनियम 32 (है) के अनुसार पासेल आधार एवं विक्रय पर चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में ई-नीलामी मंच के माध्यम से 'जैसी हैं जहां है', 'जैसी है जो है', 'वहां जो कुछ मी हैं। और बिना संसाधन आधार विक्रय करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। डिसपीजिशन के लिए उत्त प्रस्ताव किसी भी प्रकार की बारटी और वातिपूर्ति के बिना है।

नीचे दी गई तालिका में उत्तिलखित परिसंपत्तियों का बोलीवान, औनलाइन ई—गीलामी सेवा प्रदाता मैससं लेकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://eauctions.co.in के माध्यम किया जायेगा।

अपेक्षित प्रपन्ना, शपसपत्रा, घाषणा, इत्यादि प्रस्तुतः करना	03.04.2024 〒 17.04.2024 市市
स्थल भ्रमण 🗸 निरीक्षण विधि	03.04.2024 से 26.04.2024 तक
ईएमढी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	01.95.2024 को साथ 05.06 करो तवा
	स्नॉक ए दिनाम : 03.05.2024 समय : मध्या 11:00 से अप. 01:00 वजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) स्नॉक बी दिनावा : 03.05.2024 समय : मध्या 11:00 से अप. 03:00 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के

ब्लॉक ए : भारतीय ऋषशोधनाक्षमता एवं विवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम १७(दी) के अनसार ई.-मीलामी में विकास के लिये जपलबा परिसंपत्तियों का निम्नलिवित ब्लॉक इस प्रकार है.

東、	लॉट का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धराज (फ. में)
1	लॉट 1 ः दीसा, राजस्थान में संयंत्र एवं मशीनरी (लालसीट सुरंग में स्थित)	36,97,748	3,70,000
2	लॉंट 2 कटरा, जम्मू एवं कश्मीर में संयंत्र एवं मशीनरी (कटरा से 3 कि.मी. रियासी रोड — शिरवार की ओर)	32,38,195	3,24,000
1	लॉट 3 : उदयपुर, राजस्थान में एकल संबंत्र एवं मशीनशे (आवर माइस में स्थित) : बूमर जंबो द्वित।	31,45,533	3,15,000
4.	लॉट 4 : एकल कार (वंगन—आर) जिसका राजिस्ट्रेशन नबर— डीएल 9सी एएल 4941 में, नई दिल्ली में	85,100	8,500

स्तांक बी भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 32(ई) के अनुसार ई-नीलामी में विक्रय के लिये उपलब्ध परिसंपत्तियों के निम्नलिखित ब्लॉक इस प्रकार है :

育.	ब्लॉक का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धराज (रु. में)
я.	दौसा, राजस्थान (लालसीट शुरंग में स्थित), कटरा, जम्मू एवं कश्मीर (कटरा से 3 किलोमीटर रियासी रोड – शिरवार की ओर) और उदवपुर, राजस्थान (जावर माईस में स्थित) में संयत्र एवं मशीनरी सर्डित एक घलायमान प्रतिष्ठान के रूप में निगमित देनदार और कार (वैगन–आर), जिसका पंजीकरण नंबर–औएल 9सी एएल 4941 है, नई दिल्ली में।	1,00,81,476	10,08,000

इक्कुक आवेदकर्गण पूर्ण ई—नीलामी प्रक्रिया जानकारी प्रलेख का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं जिसमें परिसापत्तियों के विक्रय के संबंध में ई-जीलामी बोली आवेदन पत्र घोषणा एवं मध्यपत्र अन्य प्रधान निवम एवं शतों के संदर्भ में विकरण समाविष्ट हैं। सभी लागू नियमों एवं शती के साथ ई—नीलागी में भाग लेने के लिये जावश्यक विस्तृत प्रलेख संमावित बोलीदाताजों हारा utm.liquidator@gmail.com पर एक इंमेल लिखकर या मि. अजीम तारिक खान से +61— 7566661818 पर संपर्क करके प्राप्त किये जा सकते हैं। परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताये किसी मी समय किसी भी बोली करे स्वीकार या अरवीकार करने या निरस्त करने अथवा ई-मीलामी की किसी भी शर्त को बढ़ाने या शंशीधित करने का अधिकार सुरक्षित है। इच्छुक बोलीदाताओं को, अपनी बोली जमा करने से पहले परिसर्पालयों के स्वामित्व, और रखरखंडव शुल्क, व्यदि कोई हो, के बारे में खड़ट विजिट के दौरान अपने खर्च पर (अपनी लागत पर) अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी वाडिये तथा संपत्ति का निरीक्षण करना वाडिए और खुद को संतुष्ट करना चाड़िये। बोलीदातागण भाग ए के अंतर्गत परिलंपत्तियों के किसी एक या अधिक ब्लॉक्स एवं / अथवा भाग बी के अंतर्गत एक चलायनान प्रतिष्ठान के रूप में निगमित चेनदार के लिए एक साथ बीलियां प्रस्तुत कर

लदद्वारा सभी इच्छक पार्टियों को सुचित किया जाता है कि ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी की परिसंपत्तियों की ई-नीलामी एक साथ की जायंगी तथा संहिता एवं परिसमापन विनियमावली के प्रावधानों के अधीन परिस्तमापक के पास सफल बोलीदाता घोषित करने के लिये एकमात्र एवं पूर्ण विवेकाधिकार होंगा। विवरणों वो लिये कृपेया ई-नीलामी प्रक्रिया जानकारी प्रलेख का संदर्भ ग्रहण करें।

> कांति मोहन रुस्तमी, परिसमायक युटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में पंजी: न: IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240 **कार्यालय पता** : एक-14, प्रथम तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली 110048 पंजी. ईमेल आईबी : kanti rustagi@patanjaliassociates.com

बीएलएस ई-सर्विसेज लिभिटेड

पत्राचार के लिये परियोजना-विशिष्ट पता : हारा रिसर्जेट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 905. 9वां तल, टॉवर-सी, पुनिटेक विजनेस जोन, द वलोज साउथ, संक्टर 50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 दिनांक : 03-04-2024 संपर्क नंबर : +91-7566661818 रुधान : नई दिल्ली ईमेंल आईंडी (प्रक्रिया विशिष्ट) : utm.liquidator@gmail.com

पंजीकृत कार्यालय : जी-4बी-1, एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव औद्योगिक संपदा, मधुरा मार्ग, नई दिल्ली – 110044, दिल्ली, भारत निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 865, उद्योग विहार, फेज 5, गुड़गांव-122016, हरियाणा, भारत

(सीआईएन : U74999DL2016PLC298207)

Sewa

दूरभाष : 91—11—46990006, ई—मेल : cs@blseservices.com, वेबसाइट : www.blseservices.com पोस्टल बैलेट की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो, के अनुसार बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी') के शेयरधारकों को नोटिस दिया जाता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 ("नियम") (उस समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन, स्पष्टीकरण, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन सहित) लागू होने के नाते) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथासंशोधित ("सूचीबद्धता विनियम") और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार (" एमसीए") सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33 के माध्यम से ई-वोटिंग के माध्यम से सामान्य बैठकें आयोजित करने / डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए / 2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 और 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक मई के साथ पढ़ें 05, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर,2023 और एमसीए ("एमसीए परिपत्र") और सचिवीय द्वारा जारी अन्य सभी लागू परिपत्र, यदि कोई हों, भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर मानक ("एसएस–2") और कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए समय-समय पर लागू और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से मतदान करके डाक मतपत्र के माध्यम से यहां दिए गए निम्नलिखित व्यवसाय के लिए एक विशेष संकल्प :

1. बीएलएस ई–सर्विसेज कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना–2024 की मंजूरी 2. स्टॉक देने की मंजूरी बीएलएस ई-सर्विसेज कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना-2024 के तहत सहायक कंपनी (कंपनियों) या एसोसिएट कंपनी (कंपनियों) या होलिंडग कंपनी (वर्तमान और

भविष्य) के कर्मचारियों के लिए विकल्प कंपनी के कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प देने की मंजूरी बीएलएस ई-सर्विसेज कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना-2024 के तहत द्वितीयक अधिग्रहण के माध्यम से

बीएलएस ई–सर्विसेज कर्मचारी स्टॉक स्टॉक विकल्प योजना– 2024 के तहत कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्ट / ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा धन के

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने बुधवार, 03 अप्रैल, 2024 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस ईमेल किया है। नोटिस उन सभी सदस्यों / लाभार्थियों को भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत हैं मेसर्स केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केएफआईएन") के साथ, कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के रजिस्ट्रार और ट्रांसफरएजेंट और जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 ("कट—ऑफ तारीख") तक। सदस्यों का मतदान अधिकार कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात होगा। एक व्यक्ति जो उपरोक्त तिथि पर सदस्य नहीं है, इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश

सामान्य परिपत्रों की शर्तों के अनुसार, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस की हार्ड कॉपी पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.blseservices.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड ("बीएसई"), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

("एनएसई") और सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, प्रबंधन नियमों के नियम 20 के साथ पढ़ें और समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में समय के साथ, कंपनी ने कंपनी के सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि मतदान की अवधि गुरुवार, 04 अप्रैल, 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 03 मई, 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडचूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस और उसके तहत दिए गए निर्देशो को पढ़ें। यदि आपके पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर पारे! (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800225533 पर कॉल करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा मतदान के परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या उनकी अनुपरिथिति में, उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मंगलवार, 07 मई, 2024 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। उक्त परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड ("बीएसई")" और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") को सूचित किया जाए, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://www.blseservices.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी अपलोड किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसा कृते बीएलएस ई-सर्विसेज लिमेंटेड

संजय कुमार रावत स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी दिनांक : 03 अप्रैल 2024 आईसीएसआई सदस्यता सं.: एसीएस 23729

खोया और पायाः

संपत्ति से संबंधित मूल शीर्षक दस्तावेज अर्थातः प्लॉट नंबर 207, ब्लॉक-बी, फेज ।। नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संपत्ति, जो नोएडा (न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा पट्टे पर ली गई मेसर्स शामकेन कॉटिसन लिमिटेड से संबंधित है।) खो गए हैं. ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली पुलिस के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल एलआर नंबर: 1604543/2024 दिनांक 02/04/2024 के माध्यम से दर्ज की गई

संस्थापक इसे यहां वापस कर सकते हैं: **ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1,** नई दिल्ली —110048 **या यहां कॉल करें: 98731 64220।** (श्री संजय गूप्ता, **मेसर्स** शामकेन कॉटिसन लिमिटेड के मामले में परिसमापक) नियुक्त माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज द्वारा पारित परिसमापन आदेश दिनांक 31.01.2022 के तहत ।

सार्वजनिक उदघोषणा

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 14 के अंतर्गत) (स्वैचित्रक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017) <u> डेल्टा एनर्जी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ</u> 1. कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम डेल्टा एनर्जी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट

		लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	14.11.1996
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगनित / पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा)
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट व्यक्ति की सीमित देयता पहचान संख्या	U32308HR1996PTC034410
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 43, सेक्टर—35 इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122001
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	02 अप्रैल 2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण संख्या	श्री पूनम चंद जैन नं. 2382, सेक्टर—16, फ़रीदाबाद, हरियाणा, 121002 ईमेल आईडी: cspcjain@gmail.com मोबाइल: +91 9811087881 रजि. क्रमांक: IBBI/IPA-002/ 1P-N00702/2018-2019/12274
	1 0 0	

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि **डेल्टा एनर्जी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** ने 02 अप्रैल 2024 से लेनदारों के अनुमोदन के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू कर दिया है डेल्टा एनर्जी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए 03 मई 2024 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 07 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को कहा जाता है।

8 दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

स्थानः फ्रीदाबाद

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

पूनम चंद जैन

डेल्टा एनर्जी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में परिसमापक दिनांकः 03/04/2024 रजि. संख्याः IBBI/IPA-002/1P-N 00702@2018&2019@12274 एएफए 24 अक्टूबर 2024 तक वैध है।

03 मई 2024

फॉर्म ए सार्वजनिक सुचना (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत) (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016) पेसर सिक्योर सर्विसेन प्राइवेट लिभिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	प्रासंगिव	न विवरण	
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	पेसर सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिभिटेड	
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05.12.2011	
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनियाँ, एनसीटी दिल्ली	
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U74920DL2011PTC228319	
5.	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	प्लॉट नं. 62, ब्लॉक सी, द्वारका विहार ककरोला— नजफगढ़ रोड, दिल्ली जल बोर्ड के पीछे नजफगढ़, दिल्ली — 110043	
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	02.04.2024	
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	29.09.2024	
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	राजेश गुप्ता आईबीबीआई/आईपीए-002/1पी-एन01169/2021-2022/13948	
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल	पताः सी—10, एलजीएफ, लाजपत नगर—III, नई दिल्ली —110024 ईमेलः rguptafcs@gmail.com	
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई—मेल	पताः सी–10, एलजीएफ, लाजपत नगर–III, नई दिल्ली –110024 ईमेलः <u>circ.pacersecure@gmail.com</u>	
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16.04.2024	
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	लागू नहीं	
13.	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिह्नित किया गया है।	लागू नहीं	
14.	(प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) (क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(ए) प्रासंगिक प्रपत्र आईबीबीआई की वेबसाइट https://ibbi.gov.in/home/downloads से प्राप्त किए जा सकते हैं। (बी) एन.ए.	
एतद	एतद्दवारा सुचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ टिब्यनल प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 02.04.2024 को पेसर सिक्योर		

द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 02.04.2024 को **पेसर सिक्योर** सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। पेसर सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्दवारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर

अंतरिम समाधान पेशेवर को 16.04.2024 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी

लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

> मेसर्स पेसर सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अंतरिम समाधान पेशेवर आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः आईबीबीआई / आईपीए-002 / 1पी-एन01169 / 2021-2022 / 13948

ईमेल आईडी: cirp.pacersecure@gmail.com, rguptafcs@gmail.com **दिनांकः** 03.04.2024 स्थानः नई दिल्ली एएफए वैधः 08.11.2024 तक

एकएम क्रिएशन्स लिमिटेड (पूर्व की एकेएम लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः सी-110, जी/एफ, भोला नाथ नगर, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली -110032 सीआईएन: L17291DL2009PLC196375, ईमेलः akmlace@gmail.com, वेबसाइटः www.akmlace.com

पोस्टल बैलेट एवं ई-वोटिंग की सुचना

कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन), नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और धारा 110 के साथ पठित कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा 30 सितंबर, 2023 तक उपरोक्त परिपत्रों में प्रदान की गई रूपरेखा के विस्तार के संबंध में दिनांक 28 दिसंबर, 2022 का क्रमांक 11/2022 के संबंध में जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जुन, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और 03/2022 दिनांक 5 मई, 2022, (इसके बाद सामहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44, और अन्य लागू प्रावधान, जिसमें समय-समय पर किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके समय के लिए पुनः अधिनियमन शामिल है और जैसा कि तत्समय उल्लेख किया

गया है, के अनुपालन में निम्नलिखित मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की मंजरी के लिए एक पोस्टल बैलट नोटिस, उक्त नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति मांगने के लिए इलेक्टॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज

प्राइवेट लिमिटेड के साथ शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 (कट-ऑफ तिथि) तक पर्जीकृत है :		
क्र.सं	संकल्प का विवरण	(साधारण⁄विशेष)
1	कंपनी का नाम 'एकेएम क्रिएशंस लिमिटेड' से बदलकर 'आयुष आर्ट एंड बुलियन लिमिटेड' करना, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना	विशेष संकल्प
2	श्री महावीर रमेशचंद्र चुडासमा (डीआईएनः 10429758) को कंपनी के गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियमित करना	विशेष संकल्प
3	श्री प्रदीपभाई राठौड़ (डीआईएनः 10429763) को कंपनी के गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियमित करना	विशेष संकल्प
4	कंपनी के निदेशक के रूप में श्री मौलिक राजेंद्रभाई शाह (डीआईएन: 07578813) की नियुक्ति को मंजूरी, जिन्हें प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा।	विशेष संकल्प
5	कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री पीयूष परमार (डीआईएनः	साधारण संकल्प

09634827) का नियमितीकरण ईमेल के माध्यम से उक्त नोटिस का प्रेषण बुधवार 03 अप्रैल, 2024 को पूरा हो गया है। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.akmlace.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई') और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://nsdl.co.in/ की वेबसाइट के संबंधित अनुभाग पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस नहीं मिला है, वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से पोस्टल बैलट के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों को आगे

सचित किया जाता है कि: (ए) पोस्टल बैलट के नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किए जाने

(बी) रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 04 अप्रैल, 2024 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी।

(सी) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 03 मई, 2024 को 05:00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। (डी) इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 29 मार्च, 2024 है। (ई) सदस्य ध्यान दें कि (i) उपरोक्त बिंदु 'सी' के तहत उल्लिखित तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी और मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा; और (ii) एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं

(एफ) भौतिक मोड या डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले या जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं. उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग का तरीका पोस्टल बैलट के नोटिस में प्रदान किया गया है और कंपनी की वेबसाइट www.akmlace.com पर उपलब्ध है।

(जी) ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित लिंक पर जाकर अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत

करवा लें: www.akmlace.com ii. डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करें।

(एच) ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए, सदस्य एनएसडीएल ईमेल आईडीः https://www.evoting.nsdl.com पर लिख सकते हैं या 1800 1020 990/1800 224 430 पर संपर्क कर सकते |हैं। इसके अलावा, ई-वोटिंग पूछताछ के लिए, शेयरधारक https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual देख सकते हैं या टोल-फ्री नंबरः 18001020 990/1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते एवं हिते एकेएम क्रिएशंस लिमिटेड (पूर्व की एकेएम लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड)

डीआईएन: 09580407

जागृतिबेन दीपकभाई परमार

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 04-04-2024